



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 313]

No. 313]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 1982/श्रावण 4, 1904

NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 1982/SRAVANA 4, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1982

का.आ. 529(अ).—केंद्रीय सरकार ने वर्ष 1982 को
“उत्पादकता वर्ष” के रूप में घोषित किया है,

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि अधिकतम संभव
सीमा तक सभी मजबूरियों को दूर करके उत्पादन को बढ़ाने के
लिए अर्थव्यवस्था के और निश्चयात्मक उत्पादक अभिसंस्करण के
लिए दिशा प्रदान की जाती है ;

अतः, केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन)
अधिनियम, 1951 (1951 का 85) की धारा 29ख की उपधारा
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे सभी औद्यो-
गिक उपक्रमों को, जो उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत
हैं या जिनकी बाबत उक्त अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति या
अनुज्ञा जारी की गई है, उक्त अधिनियम की धारा 12, की
उपधारा (1) के खंड (घ) और तदधीन बनाए गए नियमों के
प्रवर्तन में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है,
अर्थात् :—

(1) विनिर्माण की वस्तु वह वस्तु नहीं होगी जो भारत
सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास

विभाग) की अधिसूचना म.का.आ. 93 (अ) उ.
वि.वि.अ. (29ख) 73-1 तारीख 16 फरवरी,
1973 की अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट है ;

- (2) विनिर्माण की वस्तु नाशकजीवमार विनिर्मितियों में
संबंधित वस्तु नहीं होगी ;
- (3) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार
अधिनियम, 1969 (1969 का 54) के क्षेत्रान्तर्गत
या विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, 1973
(1973 का 46) के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले किसी
औद्योगिक उपक्रम के संबंध में, विनिर्माण की
वस्तु इस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में गमि-
लित किसी उद्योग से संबंधित होगी ,
- (4) औद्योगिक उपक्रम छूट के लिए तभी पात्र होगा जब
कि यह छूट ऐसे माल के किसी वर्णन की बाबत है
जिसके लिए औद्योगिक उपक्रम एकाधिकार तथा
अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969
(1969 का 54) के अर्थात्तर्गत प्रधान उपक्रम नहीं
है ;
- (5) औद्योगिक उपक्रम ने 1 अप्रैल, 1982 के पूर्ववर्ती 5
वित्तीय वर्षों में से किसी में अपनी अनुज्ञप्त क्षमता
का कम से कम 94 प्राप्त कर लिया है ;
- (6) अनुज्ञप्ति रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र 98 पृष्ठांकित की
जाने वाली क्षमता, 1 अप्रैल, 1982 के पूर्ववर्ती

5 वर्षों में से किसी के दौरान प्राप्त उच्चतम उत्पादन धन उसके 33-1/3 प्रतिशत तक सीमित रहेगी ।

- (7) औद्योगिक उपक्रम संतुलन उपस्करों के सिवाए स्व-देशी या आयातित कोई भी अतिरिक्त मशीनरी संस्थापित नहीं करेगा किन्तु धर्त यह है कि ऐसे उपस्कर के संस्थापन के परिणामस्वरूप क्षमता में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं होती है ।

2. यह अधिसूचना, सिवाय इस बात के कि वर्तमान अधिसूचना में छूट का उपबंध भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विभाग) की अधिसूचना सं. 98(अ)/आई डी आर ए/29स/ 73-1, तारीख 16 फरवरी, 1973 की मद 3 के नीचे द्वितीय परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवस्थानिक मजबूरियाँ के हात हुए भी उपलब्ध हो सकें, उक्त अधिसूचना के अतिरिक्त होगा न कि उसके अन्तीकरण में ।

अनसूची

1. धातुकर्म उद्योग

- (1) लौह मिश्र धातुएं
- (2) इस्पात का इन्कैंड और पिटाई का माल
- (3) विशेष इस्पात
- (4) अलौह धातुएं और उनके मिश्रण

2. वायलर और वाष्प उत्पादन संयंत्र

3. मूल गति उत्पादक (विद्युत जनित्रों से भिन्न)

- (1) औद्योगिक टर्बाईन
- (2) अन्तर्दहन इंजन

4. विद्युत उपस्कर

- (1) विद्युत के संप्रेषण और वितरण के लिए उपस्कर
- (2) विद्युत मोटरे
- (3) विद्युत भट्टियाँ
- (4) एक्स-किरण उपस्कर
- (5) इलेक्ट्रानिक संघटक और उपस्कर

5. परिवहन

- (1) 1000 डी डब्ल्यू टी तक के यंत्रचालित जलपान
- (2) पोत अनुषंगी
- (3) वाणिज्यिक यान

6. औद्योगिक मशीनरी

7. मशीन के औजार

क. विशिष्ट प्रकार की जिगो फिक्सर, औजार और डाइयाँ

8. कृषि संबंधी मशीनरी

ट्रैक्टर और पावर टिलर

9. मिट्टी हटाने वाली मशीनरी

10. औद्योगिक उपकरण : ब्रह्मा, भार, लेबल और वैसे ही अन्य के दाठ, ताप, दर उपदर्शित करने वाली, अभिलिखित करने वाली और विनियमन करने वाली यन्त्रियाँ

11. वैज्ञानिक उपकरण,

12. नाइट्रोजनी और फास्फेटी उर्वरक, जो निम्नलिखित के अन्तर्गत आते हैं ।

- (1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में "18. उर्वरक" के अन्तर्गत आने वाले अकार्बनिक उर्वरक

13. रसायन (उर्वरक से भिन्न)

- (1) अकार्बनिक भारी रसायन
- (2) कार्बनिक भारी रसायन
- (3) परिष्कृत रसायन, जिसमें फोटोग्राफी रसायन भी हैं ;
- (4) सिलिलेट रेजिन और प्लास्टिक
- (5) सिलिलेट रबर
- (6) कृत्रिम फाइबर
- (7) औद्योगिक, विस्फोटक
- (8) कीटनाशी कवकनाशी, रबर पतवार नाशी और धँसे ही अन्य
- (9) सिलिलेट अपमार्जक
- (10) प्रकीर्ण रसायन (केवल औद्योगिक प्रयोग के लिए)

14. औषधि और औषध

- (क) उच्च प्रौद्योगिक थोक औषधि के उत्पादन के लिए आधारिक प्रक्रम से औषधि मध्यवर्ती
- (ख) आधारिक प्रक्रम से उच्च प्रौद्योगिक थोक औषधि और उन पर आधारित विनिर्मित सभी स्रोतों से विनिर्मित और (अपने विनिर्माण से) थोक औषधि खपत के बीच 1:5 के अनुपात सहित :

15. कागज और लुग्दी, जिसमें कागज उत्पाद भी हैं ।

16. आटोमोबाइल टायर और ट्यूब

17. प्लेट ग्लास

18. मूद्भांड

- (1) उच्च ताप सह
- (2) फर्मेस लाइनिंग ईटे—अम्लीय, धारीय और उदासीन (न्यूट्रल)

19. सीमेंट उत्पाद

- (1) पोर्टलैंड सीमेंट
- (2) ऐस्बेस्टास सीमेंट

[सं. 10/97/81-एल पी]

एस. एल. कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Deptt. of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1982

S.O 529(E).—Whereas the Central Government have declared 1982 as "Productivity Year",

And whereas the Central Government is of opinion that directions for a further positive production orientation are to be given to the economy to increase production by removing all constraints to the maximum extent possible.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby exempts all industrial undertakings registered

under the said Act or in respect of which a licence or permission has been issued under the said Act, from the operation of clause (d) of sub-section (1) of section 13 of the said Act and the rules made thereunder, subject to the following conditions, namely :—

- (i) the article of manufacture shall not be an article specified in Schedule I or Schedule IV or Schedule V to the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 98(E)/IDRA/29B/73-I, dated the 16th February, 1973 ;
- (ii) the article of manufacture shall not be an article relating to pesticide formulations ;
- (iii) in relation to an industrial undertaking falling within the purview of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) or within the purview of the Foreign Exchange Regulations Act, 1973 (46 of 1973), the article of manufacture shall pertain to an industry included in the Schedule annexed to this notification ;
- (iv) the industrial undertaking shall be eligible for exemption only if the expansion is in respect of any description of goods for which the industrial undertaking is not a dominant undertaking within the meaning of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) ;
- (v) the industrial undertaking should have achieved at least 94 per cent of the licensed capacity in any of the 5 financial years preceding 1st April, 1982 ;
- (vi) the capacity to be endorsed on the licence/registration certificate shall be limited to the highest production achieved during any of the 5 years preceding 1st April, 1982 plus 33 1/3 per cent thereof ;
- (vii) the industrial undertaking shall not instal additional machinery, indigenous or imported, except balancing equipments subject to the condition that installation of such equipment does not result in increase in capacity by more than 25 per cent.

2. This notification is in addition to and not in derogation of the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. 98(E)/IDRA/29B/73-I, dated the 16th February, 1973, except that the exemption provision in the present notification may be available notwithstanding the locational constraints specified in the second proviso below item 3 of the aforesaid notification.

SCHEDULE

1. Metallurgical Industries
 - (1) Ferro alloys
 - (2) Steel castings and forgings
 - (3) Special steels
 - (4) Non-ferrous metals and their alloys.
2. Boilers and Steam Generating Plants.
3. Prime Movers (other than Electrical Generators)
 - (1) Industrial turbines
 - (2) Internal combustion engines.
4. Electrical Equipment
 - (1) Equipment for transmission and distribution of electricity
 - (2) Electrical motors
 - (3) Electrical furnaces
- (4) X-ray equipment
- (5) Electronic components and equipment.
5. Transportation
 - (1) Mechanised sailing vessels upto 1000 DWT
 - (2) Ship ancillaries
 - (3) Commercial vehicles.
6. Industrial Machinery.
7. Machine Tools
 - 7A. Jigs, Fixtures, Tools and Dies of Specialised Types.
8. Agricultural machinery, Tractors and power tillers.
9. Earthmoving Machinery.
10. Industrial instruments : indicating, recording and regulating devices for pressure, temperature, rate of flow, weights, levels and the like.
11. Scientific Instruments.
12. Nitrogenous and Phosphatic Fertilisers falling under
 - (1) Inorganic fertilisers under '18. Fertilisers' in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.
13. Chemicals (other than Fertilisers)
 - (1) Inorganic heavy chemicals
 - (2) Organic heavy chemicals
 - (3) Fine chemicals, including photographic chemicals
 - (4) Synthetic resins and plastics
 - (5) Synthetic rubbers
 - (6) Man-made fibres
 - (7) Industrial explosives
 - (8) Insecticides, fungicides, weedicides and the like
 - (9) Synthetic detergents
 - (10) Miscellaneous chemicals (for industrial use only).
14. Drugs and Pharmaceuticals
 - (a) Drug intermediates from the basic stage for production of high technology bulk drugs; and
 - (b) High technology bulk drugs from basic stage and formulation based thereon with an overall ratio of bulk drug consumption (from own manufacture) to formulation from all sources of 1:5.
15. Paper and Pulp Including Paper Products.
16. Automobile Tyres and Tubes.
17. Plate Glass
18. Ceramics
 - (1) Refractories
 - (2) Furnace lining bricks—acidic, basic and neutral.
19. Cement Products.
 - (1) Portland cement.
 - (2) Asbestos cement.

[No. 10/97/81-LP]

S. L. KAPUR, Jt. Secy.

